



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 1975/आषाढ़ 27, 1897

No. 259] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 1975/ASADHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th July 1975

S.O. 361(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Durga Prasad Dhar, a member elected to the Council of States from Jammu and Kashmir, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 11 August, 1975 (Monday).

[No. 100/CS-J&K/1/75(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

क्रा० अा० 361 (अ).—यतः, जम्मू और कश्मीर राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व त्यागपत्र दे दिए जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

(1685)

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 11 अगस्त, 1975 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्वर्धन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०सं०-ज०क०/1/75(1)]

S.O. 362(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-J&K/1/75 (1), dated 18th July, 1975:—

- (a) 25th July, 1975 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) 26th July, 1975 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 28th July, 1975 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 5th August, 1975 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 11th August, 1975 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-J&K/1/75(2)]

का० अ० 362 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-ज०क०/1/75(1), तारीख 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- | | |
|---|------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख | 25 जुलाई, 1975
(शुक्रवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 26 जुलाई, 1975
(शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख | 28 जुलाई, 1975
(सोमवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मत-दान होगा। | 5 अगस्त, 1975
(मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा। | 11 अगस्त, 1975
(सोमवार) |

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०सं०-ज०क०/1/75(2)]

S.O. 363(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-J&K/1/75(1), dated 18th July, 1975.

[No. 100/CS-J&K/1/75(3)]

का० प्र० 363 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(1), तारीख, 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(3)]

S.O. 364(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, hereby designates the Secretary, Legislative Assembly, Jammu and Kashmir, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-J&K/1/75(1), dated 18th July, 1975.

[No. 100/CS-J&K/1/75(4)]

का० प्र० 364 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, जम्मू और काश्मीर सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(1), तारीख 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए जम्मू और काश्मीर विधान सभा के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(4)]

S.O. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri Roshan Din, Deputy Secretary, Legislative Assembly Jammu and Kashmir, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-J&K/1/75(1), dated 18th July, 1975, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-J&K/1/75(5)]

By order,

A. N. SEN, Secy.

का० प्र० 365 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(1), तारीख 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए जम्मू और काश्मीर विधान सभा के उपसचिव श्री रोशन दीन की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/रा०स०-ज०क०/1/75(5)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

